



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221332
CG-DL-E-25082020-221332

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]
No. 421]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2020

सं. 63/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 527(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 सितम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 100 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2020

No. 63/2020—Central Tax

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2020, as the date on which the provisions of section 100 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), shall come into force.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director